


बाढ़ और बाढ़ बीमा पर त्वरति तथ्य

FEMA का राष्ट्रीय बाढ़ बीमा कार्यक्रम (NFIP, अंग्रेजी में संक्षिप्त नाम) का उद्देश्य बाढ़-सुरक्षित समुदायों का निर्माण करना और भविष्य में होने वाले बाढ़ के नुकसान को कम करना है। यह कार्यक्रम संघीय योजना और नज्दी बीमा कंपनियों के माध्यम से लोगों को बाढ़ बीमा प्रदान करता है।



आम ग़लत फ़हमियां

झूठे कसिसे:
NFIP के माध्यम से बाढ़ बीमा मेरी बीमा एजेंसी के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता है।

झूठे कसिसे:
बाढ़ बीमा पहले से खरीदना आवश्यक नहीं है। अगर मैं इस तूफ़ान के आने से एक दिन पहले खरीदो मैं कवर हो जाऊंगा।

झूठे कसिसे:
मुझे बाढ़ बीमा की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल आपदा सहायता पर भरोसा कर सकता हूँ।

झूठे कसिसे:
'कू'मैं उच्च-जोखिम बाढ़ क्षेत्र में नहीं रहता/रहती, इसलिए मुझे बाढ़ बीमा की आवश्यकता नहीं है।

सच:
कई बीमा कंपनियां NFIP में भाग लेती हैं और उनके पास ऐसे बीमा एजेंट होते हैं जो NFIP पॉलिसियां बेचते हैं। अपने बीमा प्रदाता से संपर्क करके पूछें कि क्या वे इसमें भाग लेते हैं या [floodsmart.gov/find](https://www.floodsmart.gov/find) (केवल अंग्रेजी में) पर जाएं।

सच:
NFIP पॉलिसियों में आम तौर पर उसे खरीदने के बाद 30 दिनों की प्रतीक्षा अवधि होती है जब तक कि वह प्रभावी न हो जाए। एक अपवाद यह है यदि पॉलिसी को प्रदाता की आवश्यकता के रूप में खरीदा गया हो।

सच:
संघीय आपदा सहायता केवल राष्ट्रपति द्वारा आपदा की घोषणा के बाद ही उपलब्ध होती है और यह FEMA से वित्तीय या प्रत्यक्ष सहायता तथा अमेरिकी लघु व्यवसाय प्रशासन (SBA, अंग्रेजी में संक्षिप्त नाम) से कमब्याज वाले ऋण के रूप में उपलब्ध होती है। इनमें से किसी का भी उद्देश्य बीमा की जगह लेना या किसी आपदा से होने वाले सभी नुकसानों की भरपाई करना नहीं है। SBA ऋणों के विपरीत, NFIP दावों को चुकाना नहीं पड़ता है।

सच:
बाढ़ नुकशे पर रेखाओं का अनुसरण नहीं करती—आपका बाढ़ क्षेत्र ही एकमात्र कारक नहीं है जो आपके बाढ़ जोखिम को निर्धारित करता है। कई अन्य कारक, जैसे हाल ही में हुआ निर्माण कार्य, आग, टूटा हुआ बांध या अत्यधिक सूखी ज़मीन, बाढ़ का कारण बन सकते हैं। 2013 और 2023 के बीच, NFIP बाढ़ बीमा दावों का एक तिहाई हिस्सा मौजूदा उच्च जोखिम वाले बाढ़ क्षेत्रों के बाहर स्थित वाले क्षेत्रों से आया।

क्या आपको पता था?

 ज्यादातर मकान मालिकों और किराएदारों की बीमा पॉलिसियां बाढ़ से होने वाले नुकसान को कवर नहीं करती हैं।

 आपकी NFIP पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान सामान्यतः वार्षिक होता है, मासिक नहीं।

 NFIP तूफ़ान की तैयारी में मदद के लिए बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाव के खर्चों को कवर करता है।



बाढ़ बीमा के लाभों के बारे में अधिक जानने और यह समझने के लिए कियह आपके द्वारा बनाई गई जिंदगी की सुरक्षा कैसे कर सकता है, अपने बीमा प्रदाता से संपर्क करें। बाढ़ बीमा प्रदाता ढूँढने और क्वोट प्राप्त करने के लिए, [floodsmart.gov/find](https://www.floodsmart.gov/find) (केवल अंग्रेजी में) पर हमारे ऑनलाइन टूल का उपयोग करें या **(877) 336-2627** पर कॉल करें।